



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2003/पौष 3, 1925

No. 617]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2003/PAUSA 3, 1925

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2003

सा. का. नि. 964(अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3-ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी (1999-2000 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश को चीनी (1999-2000 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2003 कहा जाए।
(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. चीनी (1999-2000 में उत्पादन के लिए कीमत निर्धारण) आदेश, 1999 में,—
(i) अनुसूची I में बिहार (उत्तर) से संबंधित क्रम संख्या 3 में स्तम्भ संख्या 3 में मौजूदा प्रविष्टि "1173.08" को प्रविष्टि "1129.36" प्रतिस्थापित करेगी;
(ii) अनुसूची II में बिहार (उत्तर) से संबंधित क्रम संख्या 3 में, स्तम्भ संख्या 3 में मौजूदा प्रविष्टि "1171.51" को प्रविष्टि "1127.79" प्रतिस्थापित करेगी।

[फा. सं. 2-1/99-एस.पी.वाई-डी-II/एस.पी.]

पी. उमा शंकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी.—मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 2 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था और जिसे बाद में दिनांक 6 अप्रैल, 2000 के सा.का.नि. 315(अ)/आ.व./चीनी तथा दिनांक 5 फरवरी, 2003 के सा.का.नि. 85(अ)/आ.व./चीनी द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****ORDER**

New Delhi, the 24th December, 2003

G.S.R. 964(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Price Determination for 1999-2000 Production) Order, 1999, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Price Determination for 1999-2000 Production) (Second Amendment) Order, 2003.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Sugar (Price Determination for 1999-2000 Production) Order, 1999,—
 - (i) in Schedule I against serial number 3, relating to Bihar (North) in column No. 3, for the existing entry, “1173.08”, the entry “1129.36” shall be substituted;
 - (ii) in Schedule II, against serial number 3 relating to Bihar (North) in column No. 3, for the existing entry, “1171.51” the entry, “1127.79” shall be substituted.

[F. No. 2-1/99 SPY-D-II/SP]

P. UMA SHANKAR, Jt. Secy.

Note :— The Principal Order was published in the Gazette of India Extraordinary *vide* notification No. G.S.R. 797(E)/Ess. Com./Sugar dated the 2nd December, 1999 and subsequently amended *vide* G.S.R. 315(E)/Ess. Com./Sugar dated the 6th April, 2000 and G.S.R. 85(E)/Ess. Com./Sugar dated the 5th February, 2003.